

#### DEAR PARENTS,

Let's try something amazing this vacation.

- # Encourage your child to converse in English.
- # Make your child involve in activities like Art, Music etc. through assignments.
- # Help your child revise every work done so far.



Let's Start ... Help your mother in laying the table and cleaning it.

Take two old cups or bowls, fill one with water and other with seeds everyday and keep it outside for birds to drink and eat.

Switch off the lights and fans when not in use.

Remember and use magic words – Please, Thank you, Sorry. Use these words in your daily routine.

1. Find all the 'a' sound words from the magic pot and write in the scrap book.

**AABRA KA  
DABRA**




2. Prepare flash cards with all vowel sound words.
3. Paste five junk foods and 5 healthy foods in scrapbook.
4. Write 10-10 words from each vowels sound.
5. Complete the memories book page no. 1 to 4, 11, 13, 14
6. Prepare a big flower related to summer (Like: SUNFLOWER, HIBISCUS, CONE FLOWER)


**Examples- As shown below.**



7. Have you ever thought why we need a sense organ.....



Make a flower of sense organs. Example as shown below:



8. I hope you have learnt vowels sound.  
Now let's revise it and make a caterpillar hanging.




**A says a, a**  
**E says e, e**  
**I says i, i, i**  
**O says o, o**  
**I say my vowels,**  
**A, E, I, O, U**



हिन्दी

1. दिए गए अक्षरो से 5 शब्द बना कर फूलों का एक गुलदस्ता बनाएँ।  
उदाहरण :



2. स्वर सुलेख पृष्ठ संख्या 1 से 5 तक पूरा करें।
3. दो अक्षर वाले 10 शब्द लिखें।
4. चार अक्षर वाले 10 शब्द लिखें।
5. तीन अक्षर वाले 10 शब्द लिखें।
6. कोई पाँच शब्दों और उनके विलोम के चित्र बनाएँ या चिपकाएँ और उन्हें जोड़े सहित ए-4 आकार के कागज में चिपकाइए।
7. हिंदी की पुस्तक 'आओ झूमें और गुनगुनाएँ' से दी गई कविताओं को याद करें :-



### चंदा मामा

चंदा मामा गोल मटोल,  
 कुछ तो बोल, कुछ तो बोल।  
 कल थे आधे आज हो गोल,  
 खोल भी दो अब अपनी पोल।  
 रात होते ही तुम छिप जाते,  
 अपने संग सितारे लाते।  
 लेकिन दिन में कहा छिप जाते,  
 कुछ तो बोल, कुछ तो बोल।



### सवेरा


करती पेड़ पर चिड़िया शोर,  
 ज्यों होती आँगन में भोर।  
 मुर्गे की हो कुकडू-कूँ,  
 गौरैया की चूँ-चूँ-चूँ।  
 उठो सभी अब हुआ सवेरा,  
 बिस्तर न है दिन का बसेरा।  
 सूर्य देव को नमन करो,  
 नियम से सारे काम करो।

## Maths

1. Write the number names 1-10 in the scrap book and underline all the vowels in these words.
2. Complete Little Thinker Mathematics Book page no. 15,18,19.
3. Make the bugs and paste equal numbers of bindis.




## PROJECT



**SUMMER, SUMMER IS ALMOST HERE.  
LET'S GIVE SUMMER A BIG FAT CHEER!  
OF THIS FACT I'M SURELY CLEAR.  
SUMMER IS THE BEST TIME OF THE YEAR**

Let's have some

cold juice   
which is good  
for our health.



I FEEL VERY  
HOT!



Prepare a paper lemonade craft as shown below.



Note:

1. Use 3 in 1 notebook for all written summer assignments.
2. For pasting use scrapbook.



Relax, enjoy, have lots of fun and come back refreshed.

**General Instructions:**

1. Bring holiday homework in a beautifully decorated scrap book.
2. Parents are requested to guide their children while doing the assignments.
3. Project/Assignment will be assessed on the basis of neatness and creativity.